

## **SUBJECT-Hindi**


**SESSION-2020-21**

**CLASS-3**

### **ONLINE STUDY MATERIAL**

#### **TOPIC: शब्द और वाक्य**

बच्चों! पिछले व्याकरण अध्याय में आपने स्वर और व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ा। इन्हीं वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं।  
जैसे-



इसी प्रकार अन्य शब्द भी बनाए जाते हैं।

### **शब्द की परिभाषा**


दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जैसे- शेर, दरवाजा, बर्तन, पलंग।



शेर




सेब



दरवाज़ा



बर्तन



पलंग

## वर्ण और शब्द में अंतर

वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है तथा उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे - अ, आ..... क, ख, ग.....

जबकि वर्णों के योग से शब्द बनाए जाते हैं और इनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं। जैसे-



## शब्दों के भेद

शब्दों के दो भेद होते हैं -

1. सार्थक शब्द
2. निरर्थक शब्द

**सार्थक शब्द**— वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे- भवन, शेर, बोतल आदि।

**निरर्थक शब्द** — वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द भी होते हैं, जिनका कुछ भी अर्थ नहीं होता ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे- रशे तलबो नवभ आदि।

## वाक्य

वाक्य- शब्दों के मेल से वाक्य बनाए जाते हैं।

जैसे-मोनिका साइकिल चला रही है।

दिए गए वाक्य 'मोनिका+साइकिल+चला+रही+है' , में पाँच शब्दों का प्रयोग करके एक शुद्ध वाक्य बनाया गया है। यदि इन्हीं शब्दों को उलट दें, जैसे- मोनिका + चला+ रही + साइकिल + है, तो यह एक अशुद्ध वाक्य बन जाएगा जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इस प्रकार हमने जाना कि शब्दों के सही मेल से ही एक शुद्ध वाक्य बनता है।

**वाक्य की परिभाषा**— सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे - यह मेरी पुस्तक है।

## वाक्य के अंग

प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं-

1. **उद्देश्य** - जिसके बारे में बात की जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे- 'बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं' में 'बच्चे' उद्देश्य हैं, क्योंकि बात बच्चों के बारे में ही की जा रही है।
2. **विधेय** — उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए, उसे विधेय कहते हैं। जैसे- 'बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं' में 'क्रिकेट खेल रहे हैं' विधेय है, क्योंकि यह बात 'बच्चों' (उद्देश्य) के बारे में कही जा रही है।

## I. दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए -

क. शब्द किसे कहते हैं ? उदाहरण सहित उत्तर लिखिए ।

उत्तर - दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जैसे - शेर , सेब, तोता।

ख. वर्ण और शब्द में अंतर लिखिए

उत्तर - वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है ,तथा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ, आ जबकि वर्णों के योग से शब्द बनाए जाते हैं, और इसके टुकड़े भी किए जा सकते हैं ।

ग. वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें ।

उत्तर - सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं । जैसे - यह मेरी पुस्तक है ।